

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 65]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 26 फरवरी 2024—फाल्गुन 7, शक 1945

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 2024

क्र. एफ 01-05-05-0013-2023-छब्बीस-1.—दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 101 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन दिव्यांगजन के लिए पदों के चिन्हांकन के लिए समिति, एतद्द्वारा, अनुसूची-एक में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना में, अनुसूची-दो में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिये आरक्षित पद चिन्हांकित करती है:—

अनुसूची-एक

(1) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

पद की श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम	सीधी भर्ती के कुल स्वीकृत पद	सीधे भर्ती के द्वारा भरे गये पद	रिक्त पद (3-3b)	निशक्लाने के लिए रिक्त पदों की कुल संख्या का योग (6%)	दिव्यांगजनों हेतु चिन्हांकित पद/भरे पद/रिक्त पदों की जानकारी										रिक्त पदों की पूर्ति का वार्षिक लक्ष्य					
						दृष्टि बाधित और कम दृष्टि (1.5%) चिन्हांकित पद	भरे पद	रिक्त पद	बहरे और कम सुनने वाले (1.5%) चिन्हांकित पद	भरे पद	रिक्त पद	लोकोमीटर डिसेबिलिटी जिस्में सम्मिलित है, सेरेबल पाल्सी, कुष्ठ रोग, मुक्त, बौनापन, एरिड अटैक, पीडित मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (1.5%) चिन्हांकित पद	भरे पद	रिक्त पद	ऑटिज्म, नौदिक दिव्यांगता		भरे पद	रिक्त पद	कुल भरे पद (6+9+12+15)	कुल योग (5+8+11+14)	कुल रिक्त पद (7+10+13+16)
1	2	3	3(a)	3(b)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
द्वितीय	सहायक संचालक (ज.स./कम्प्यू./फो.)	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
द्वितीय	सहायक संचालक पुस्तकालय/प्रलेखन	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
तृतीय	योग	46	31	15	3	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	3	0	3	
तृतीय	कार्टोग्राफर	13	4	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	
तृतीय	तकनीकी सहायक	19	14	5	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
तृतीय	शीघ्र लेखक ग्रेड-3	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
तृतीय	कम्प्यूटर सहायक	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
तृतीय	सहायक पुस्तकालय/कम्प्यूटर	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	
तृतीय	निम्न श्रेणी लिपिक	20	16	4	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
तृतीय	मैकेनिक	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
तृतीय	वाहन चालक	7	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	योग	70	45	25	4	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	4	2	2	
चतुर्थ	भृत्य	40	30	10	3	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	3	2	1	

पद की श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम	सीधी मर्ती के कुल स्वीकृत पद	सीध मर्ती के द्वारा भरे हुये पद	रिक्त पद (3-3a)	निश्चयजन 1 के लिए चिन्हां कित पदों की कुल संख्या का कुल योग (8%)	दृष्टि बाधित और कम दृष्टि (1.5%) चिन्हां कित पद			बहरे और कम सुनने वाले (1.5%) चिन्हां कित पद			दिव्यांगजनों हेतु चिन्हांकित पद/भरे पद/रिक्त पदों की जानकारी			रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी						
						भरे पद	रिक्त पद	भरे पद	रिक्त पद	भरे पद	रिक्त पद	भरे पद	रिक्त पद	भरे पद		रिक्त पद	कुल भरे पद (6+9+12+15)	कुल रिक्त पद (7+10+13+16)			
1	2	3	3(a)	3(b)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	योग	40	30	10	3	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	3	2	1	
	महायोग	175	108	67	11	3	2	1	3	2	1	3	0	3	2	0	2	11	4	7	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज पुष्प, अपर सचिव.